



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

23 कार्तिक 1934 (श0)  
(सं0 पटना 610) पटना, बुधवार, 14 नवम्बर 2012

---

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

-----  
अधिसूचना

9 नवम्बर 2012

सं0 नि०प्रा०/नि० 1-24/ 2012-**9814**—चूँकि बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 की धारा 14(क) में किये गये संशोधन एवं सहकारिता विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 1273 दिनांक 01.03.2012 के क्रम में उक्त अधिनियम के तहत निर्बाधित सहकारी समितियों के प्रबंधकारिणी समिति, जो अधिक्रमित हैं या जिनकी कालावधि समाप्त होने वाली है, का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के नियंत्रण, निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कराया जाना है।

और, चूँकि उक्त परिप्रेक्ष्य में प्राधिकार द्वारा दी को-ऑपरेटिव बैंकिंग सोसाईटी लिमिटेड, गर्दनीबाग, पटना के निदेशक मंडल का निर्वाचन कराने का निर्णय लिया गया है।

और, चूँकि उक्त सहकारी समिति की उपविधियों के अनुसार निदेशक मंडल में अध्यक्ष के 1 (एक), मान्यक सचिव के 1 (एक), निदेशक सामान्य 5 (पाँच), निदेशक अनुसूचित जाति के 1 (एक), निदेशक अनुसूचित जनजाति के 1 (एक), निदेशक पिछड़ा वर्ग के 1 (एक), निदेशक अति पिछड़ा वर्ग के 1 (एक) एवं निदेशक महिला वर्ग के 2 (दो) सदस्यों के लिए आरक्षित हैं।

अतः बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा-4 एवं बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 (यथा संशोधित, 2008) की धारा-14 'क' तथा सुसंगत नियमावलियों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन प्राधिकार एतद् द्वारा **परिशिष्ट-1** में अंकित कार्यक्रम के अनुसार दी को-ऑपरेटिव बैंकिंग सोसाईटी लिमिटेड, गर्दनीबाग, पटना के निदेशक मंडल के अध्यक्ष पद के निर्वाचन हेतु, सविरोध निर्वाचन की स्थिति में, मतदान हेतु दिनांक 22.12.2012 (शनिवार) की तिथि नियत करता है तथा समिति के मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे संगत अधिनियम/ नियमावली/ प्राधिकार के निदेशों के अधीन समिति के निदेशक मंडल के पदधारकों को निर्वाचित करें।

निर्वाचन पदाधिकारी निदेशक मंडल के विभिन्न पदों के निर्वाचन के लिए संलग्न प्रपत्र-1 (परिशिष्ट-2) में सूचना दिनांक 22.11.2012 (गुरुवार) को निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे।

आदेश से,  
एन0 एस0 माधवन,  
मुख्य चुनाव पदाधिकारी।

परिशिष्ट-1

दी को-ऑपरेटिव बैंकिंग सोसाईटी लिमिटेड, गर्दनीबाग, पटना के  
निदेशक मंडल के निर्वाचन हेतु निर्वाचन कार्यक्रम

|       |   |   |
|-------|---|---|
| (i)   | निर्वाचन पदाधिकारियों द्वारा प्रपत्र-1 में सूचना का प्रकाशन | 22.11.2012 (गुरुवार)  |
| (ii)  | नामांकन की तिथि एवं समय                                     | 05.12.2012 (बुधवार)<br>11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक |
| (iii) | संवीक्षा की तिथि एवं समय                                    | 07.12.2012 (शुक्रवार)<br>11 बजे पूर्वाह्न से लगातार         |
| (iv)  | अभ्यर्थिता वापसी/ प्रतीक आवंटन की तिथि                      | 08.12.2012 (शनिवार)<br>11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक |
| (v)   | मतदान, अगर आवश्यक हो  | 22.12.2012 (शनिवार)<br>7 बजे पूर्वाह्न से 2 बजे अपराह्न तक  |
| (vi)  | मतगणना  | 22.12.2012 (अपराह्न 3-4 बजे से)                             |

परिशिष्ट-2

दी को-ऑपरेटिव बैंकिंग सोसाईटी लिमिटेड, गर्दनीबाग, पटना

प्रपत्र-1

सूचना का प्रपत्र

(निदेशक मंडल के पदधारकों के निर्वाचन के लिए)

दी को-ऑपरेटिव बैंकिंग सोसाईटी लिमिटेड, गर्दनीबाग, पटना का निबंधन संख्या....., पता .....  
.....के निदेशक मंडल के सदस्यों का निर्वाचन दिनांक.....को किया जाना है।  
मैं.....निर्वाचन पदाधिकारी एतद द्वारा निम्नलिखित आम सूचना देता हूँ :-  
(निर्वाचन पदाधिकारी का नाम)

आम सूचना

(i) निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों की संख्या 13 (तेरह) है, जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत है -

| पद                       | निर्वाचित किये जाने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या |
|--------------------------|---|
| 1.                       | 2.  |
| अध्यक्ष                  | 01  |
| मान्यक सचिव              | 01  |
| निदेशक (सामान्य)         | 05  |
| निदेशक (अनुसूचित जाति)   | 01  |
| निदेशक (अनुसूचित जनजाति) | 01  |
| निदेशक (पिछड़ा वर्ग)     | 01  |
| निदेशक (अति पिछड़ा वर्ग) | 01  |
| निदेशक (महिला वर्ग)      | 02  |

- (ii) नामांकन पत्र अधोहस्ताक्षरी को उनके कार्यालय.....अथवा अपरिहार्य कारणों से उसे प्राप्त नहीं कर सकने की स्थिति में.....को.....पर दाखिल किया जा सकता है।  
(उप निर्वाचन पदाधिकारी का नाम) (स्थान का नाम)
- है। नामांकन पत्र दिनांक .....बजे पूर्वाह्न से .... बजे अपराह्न तक प्रस्तुत किया जा सकता है।  
(नामांकन पत्र दाखिला की तिथि)
- (iii) नामांकन पत्र का प्रपत्र उपरोक्त पदाधिकारियों के कार्यालय से दिनांक.....से दिनांक.....तक .....बजे से.....बजे तक प्राप्त किया जा सकता है।
- (iv) नामांकन पत्रों की संवीक्षा दिनांक.....को.....पर.....बजे पूर्वाह्न से .....बजे अपराह्न तक की जायेगी।  
(स्थान का नाम)
- (v) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना दिनांक.....को ..... बजे अपराह्न से ... बजे अपराह्न के पूर्व तक .....पर दाखिल की जा सकती है।  
(स्थान का नाम)
- (vi) सविरोध निर्वाचन की स्थिति में मतदान दिनांक.....को 7 बजे पूर्वाह्न से 2 बजे अपराह्न तक होगा।
- (vii) मतदान केन्द्र ..... (पूरा पता) में अवस्थित होगा।
- (viii) मतगणना दिनांक.....को .....बजे से.....पर की जायेगी।  
(स्थान का नाम)

स्थान-

तिथि -

निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 610-571+50-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>